

कार्यालय-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मथुरा

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र परीक्षा वर्ष 2019

प्राप्ति हेतु आवश्यक अभिलेख

1. आवेदन पत्र अथवा प्रवेश पत्र की प्रति ।
(आवेदन पत्र अथवा प्रवेश पत्र की प्रति अनुपलब्ध होने की स्थिति में शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित 10 रूपये के स्टाम्प पर फोटोयुक्त)
2. हाईस्कूल (सेकेण्डरी) अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
3. इण्टरमीडिएट (हायर सेकेण्डरी) अंकपत्र की छायाप्रति ।
4. स्नातक अंतिम वर्ष अंकपत्र की छायाप्रति ।
5. प्रशिक्षण अंतिम वर्ष की छायाप्रति तथा मूलप्रति ।
(प्रशिक्षण अंतिम वर्ष के मूल अंक पत्र के पिछले पृष्ठ लेमीनेशन रहित मुहर अंकन हेतु)
6. जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग से आवेदित अभ्यर्थी को छोड़कर) ।
7. विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र (विकलांगता/भूतपूर्व सैनिक/ स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित)।
8. आवेदन में अंकित पहचान पत्र की छायाप्रति तथा मूलरूप में साथ रखे ।
9. आवेदन में पूरित फोटो, पासपोर्ट साइज में ।
(नोट - एक प्रमाण पत्र हेतु 01 फोटो तथा दो प्रमाण पत्र हेतु 02 फोटो)

उपरोक्त समस्त प्रतियां सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित होंगी ।

नोट – प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में किसी अन्य को प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा ।

शपथ पत्र

(10 रूपये के स्टाम्प पर मुद्रित फोटो युक्त तथा नोटरी से प्रमाणित)

समक्ष

1- सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0, प्रयागराज

2- उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
मथुरा

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी _____ पिता का नाम _____

निवासी _____

धर्म पूर्वक एवं शपथपूर्वक निम्नांकित बयान करता है कि-

- १- यह कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है।
- २- यह कि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 हेतु आवेदन किया था जिसका पंजीकरण संख्या _____ है तथा अनुक्रमांक _____ के द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक अथवा दोनों परीक्षा में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी स्वयं सम्मिलित हुआ था/हुई थी।
- ३- यह कि शपथकर्ता का उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र कहीं गुम हो गया/ शपथकर्ता के पास उपलब्ध नहीं है।
- ४- यह कि शपथकर्ता को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये।
- ५- यह कि शपथकर्ता लगायत 1 से 4 तक में दी गई जानकारी से भलीभांति अवगत है तथा भगवान मेरी रक्षा करें।
मेरे द्वारा अभिलिखित उपरोक्त सभी तथ्य सही एवं सत्य हैं, यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य गलत पाये जाते हैं तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी शपथकर्ता की होगी एवं जो भी नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, उससे शपथकर्ता को कोई भी आपत्ति नहीं होगी।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

शपथकर्ता का नाम _____

शपथकर्ता के पिता का नाम _____

शपथकर्ता का मोबाइल नम्बर _____